

प्रेस नोट दिनांक-26.12.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मझियार तिराहा असोह से अभियुक्त श्यामलाल रैकवार पुत्र भैरमा रैकवार निवासी परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु०अ०सं० 184/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

18 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. उ०नि० श्री प्रभूनाथ यादव
3. आरक्षी प्रमोद कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती बिषमिल्ला बानो पत्नी श्री निजाम निवासी तेलियरगंज कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति निजाम उसके साथ मारपीट करते है, घर से निकाल दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। उ०नि० श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र, मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 26.12.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3).

**बुजुर्गों की जिन्दगी में उजाला ला रही है सवेरा योजना
112- यूपी पर कॉल कर बुजुर्ग कराएं अपना पंजीकरण**

चित्रकूट जिले में 4,975 बुजुर्ग नागरिकों ने कराया पंजीकरण

उत्तर प्रदेश पुलिस की योजना सवेरा लाखों बुजुर्गों के जीवन में उजाला भरने का कार्य कर रही है, योजना के तहत कोई भी बुजुर्ग 112 यूपी पर कॉल कर के अपना पंजीकरण करवा सकता है, पंजीकरण के बाद यदि किसी बुजुर्ग को सुरक्षा सम्बन्धी मदद की जरूरत होती है तो सम्बन्धित थाने की पुलिस या 112 की पीआरवी मौके पर पहुंच कर सहायता पहुंचाने का कार्य करती है चित्रकूट जिले में अब तक 4,975 बुजुर्ग सवेरा में पंजीकरण करवा चुके है जिला व थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया गया है।

इस तरह होता है पंजीकरण:-

112 पर सीधे काल करके बुजुर्ग अपना प्राथमिक पंजीकरण करवा सकता है प्राथमिक पंजीकरण के बाद स्थानीय थाने या चौकी से बीट के पुलिस कर्मी बुजुर्ग के घर जा कर उनका गहन पंजीकरण करते है गहन पंजीकरण में बुजुर्ग से सम्बन्धित जानकारियां (जो बुजुर्ग देना चाहे) दर्ज की जाती है।

योजना का उद्देश्य:-

क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ नियमित मेल मिलाप हो उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को शुरूआती स्तर पर ही हल किया जा सके जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे।

बुजुर्ग इन मामलों में ले सकते है मदद:-

पंजीकृत अकेले रहने वाले बुजुर्ग की सुरक्षा और उन्हें त्वरित सहायता पहुँचाना योजना का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्ग किसी परिजन या आसपास रहने वाले लोगों द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर और अन्य किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की मदद ले सकते है।

(4). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 26.12.2020 को एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा धतुरहा चौराहा, चकरेही चौराहा, बलदाऊ गंज, शंकर बाजार, कसहाई रोड में, महिलाथाना एंटीमरोमियो टीम द्वारा ज्ञान भारती इंटर कॉलेज मे गष्ठी की गयी एवं पुरानी बाजार, भैरोपागा, चाकरेही चौराहा व नवीन मंडी में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम डुंगवा, बहराइ, ढोलबजा, मुकुंदपुर, भरतकूप मंदिर, प्रा.विद्यालय ढोलबजा, प्रा.विद्यालय मुकुंदपुर, कम्पोजिट विद्यालय दुगवा मे, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा हनुमान मन्दिर कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा छात्राओं को मिशन शक्ति शिवपुर तिराहे पर, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मानिकपुर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।